

# कंपनियों के नकली स्टीकर लगाकर बाल्टियों की सप्लाई करने का आरोपित गिरफ्तार

Author: Jagran Publish Date: Sun, 13 Mar 2022 06:04 PM (IST) Updated Date: Sun, 13 Mar 2022 06:04 PM (IST)



संवाद सहयोगी, गन्नौर: लाला गढ़ी रोड स्थित फैक्ट्री में यूरिया का अवैध रूप से डीजल एग्जास्ट फ्लूड बनाने में पुलिस ने एक और आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित मनीष सिधला पश्चिम विहार दिल्ली का रहने वाला है। मनीष फैक्ट्री संचालकों को बड़ी-बड़ी कंपनियों के नकली स्टीकर लगाकर बाल्टियों को उपलब्ध करवाता था। पुलिस ने मनीष के अलावा पहले से ही गिरफ्तार फैक्ट्री संचालक देहरा महावटी के रविद्र और अजय को अदालत में पेशकर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है।

गन्नौर थाना प्रभारी धीरज कुमार ने बताया कि रोहतक सीएम फ्लाइंग की टीम ने लाला गढ़ी रोड स्थित एक फैक्ट्री में छापेमारी कर फैक्ट्री से इफको यूरिया के कट्टों को बरामद किया। यूरिया का अवैध रूप से डीजल एग्जास्ट फ्लूड बनाने में प्रयोग किया जा रहा था और इसे टाटा व आयशर जैसी नामी कंपनियों की 20 लीटर की बाल्टियों में भरकर बेचा जाता था। टीम को मौके से 64 कट्टे यूरिया, डीजल एग्जास्ट फ्लूड से भरी गई 13 बाल्टियां, 142 खाली बाल्टियां, 2000 लीटर की तीन टंकियां व 1000 लीटर की एक टंकी जिनमें फ्लूड भरा हुआ था, तीन पानी की टंकी, कंपनियों के स्टीकर सहित अन्य सामान जब्त किया था। इसके बाद पुलिस ने सीएम फ्लाइंग के निरीक्षक सुरेंद्र की शिकायत पर दोनों आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर अदालत से दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था। रिमांड अवधि के दौरान दोनों आरोपितों के बताए अनुसार उन्हें कंपनियों की स्टीकर लगी बाल्टियों को उपलब्ध करवाने वाले दिल्ली के मनीष को गिरफ्तार कर लिया है। अभी दो दिन का और रिमांड लिया गया है। आरोपितों से गंभीरता से पूछताछ की जा रही है।

Source: <https://www.jagran.com/haryana/sonipat-ganaur-22541052.html>